



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेल भर्ती बोर्ड



सीईएन सं.आरआरसी-01/2019(स्तर-1 पद)

(7वें सीपीसी मैट्रिक्स के स्तर-1 में विभिन्न पदों के लिए भर्ती)

सीबीटी के लिए परीक्षा कार्यक्रम की सूचना (फेज-3)

1. उपरोक्त सीईएन की सीबीटी कई चरणों में आयोजित की जाएगी। अब यह सूचित किया जाता है कि परीक्षा का तीसरा चरण अर्थात् फेज-3 दिनांक 08.09.2022 से 19.09.2022 तक आयोजित किया जाएगा, जो वर्तमान परिस्थितियों और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए समय-समय पर जारी किए गए सरकारी दिशानिर्देशों के अधीन होगा।
2. फेज-3 पूरे भारत के विभिन्न शहरों में चार (4) आरआरसी के समूह अर्थात् आरआरसी: ईस्ट कोस्ट रेलवे (भुवनेश्वर), पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (गुवाहाटी), उत्तर रेलवे (नई दिल्ली), दक्षिण रेलवे (चेन्नई) के लिए आयोजित किया जाएगा। शेष चरणों/आरआरसी के परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा नियत समय में की जाएगी।
3. परीक्षा शहर और तिथि देखने का लिंक दिनांक 30.08.2022 को 19:00 बजे तक लाइव कर दिया जाएगा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यात्रा प्राधिकरण को डाउनलोड करने के लिए लिंक सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिनांक 01.09.2022 को 14:00 बजे तक लाइव किया जाएगा।
4. ई-कॉल लेटर की डाउनलोडिंग परीक्षा शहर और तिथि सूचना लिंक में उल्लिखित परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले शुरू हो जाएगी।
5. परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों का आधार लिंकड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना मूल आधार कार्ड लाना आवश्यक है।
6. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को देखें। कृपया अनधिकृत स्रोतों से गुमराह न हों।
7. उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से विचार करके नौकरी के लिए नियुक्ति के झूठे वादों के साथ अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आरआरबी में चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) पर आधारित है और भर्ती केवल अभ्यर्थियों की योग्यता पर आधारित है।

दिनांक: 26.08.2022

अध्यक्ष
रेल भर्ती बोर्ड